

February 10, 2024

To, **Listing Department** NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: HONASA

To, **Listing Department BSE LIMITED** P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 544014

Sub: Newspaper cutting of financials published for the period ended December 31, 2023

Dear Sir / Madam,

We are forwarding herewith copies of newspaper cuttings of the above financials as published in the following newspapers:

Particulars	Date of Publishing
Financial Express (English)	February 10, 2024
Business Standard (English)	February 10, 2024
Jansatta (Hindi)	February 10, 2024
Apna Desh (Hindi)	February 10, 2024

The same is being made available on the website of the Company at www.honasa.in.

This is for your information and necessary records.

Thanking you,

Yours faithfully, For **HONASA CONSUMER LIMITED**

DHANRAJ DAGAR COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl: a/a

| CIN: U74999DL2016PLC306016 |

FINANCIAL EXPRESS

BEATS ESTIMATES

Tata Power Q3 profit rises to ₹1,076 crore

Revenue from operations rises 4% to ₹14,651 cr

RAGHAVENDRA KAMATH Mumbai, February 9

TATA POWER ON Friday posted a marginal growth in net profit at ₹1,076 crore in the December quarter against ₹1,052 crore in the corresponding quarter a year ago. The profit was, however, higher than analyst estimates, which had pegged it at ₹895 crore.

The company posted a growth of 4% in its revenue from operations at ₹14,651 crore in Q3FY24 compared to ₹14,129 crore in Q3FY23. Analysts had expected a revenue of ₹15,636 crore.

The company's Ebitda (earnings before interest, taxes and amortisation) was up 15% on a year-on-year basis.

CEO and managing director Praveer Sinha said: "Our core businesses continue to perform well and have helped the company clock its 17th consecutive PAT growth quarter. As the country witnesses a

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, February 9

GLOBAL BEVERAGE AND food

major PepsiCo on Friday

reported a "mid-single-digit" growth in the Indian market in

2023. Globally, PepsiCo saw a

net revenue of \$91.47 billion in

2023, registering a growth of

5.9%, according to the latest

earnings report. For the full

year, developing and emerging

markets such as "China and



POWER PLAY

■ Profit rises to ₹1,076 cr in Dec quarter of FY24

Core businesses continue to perform well during Q3 of FY24

company's Ebitda was up **15%** on a year-on-year basis

The

During Q3, the share of core business stood at 71% against 39% a year ago

Co plans to take total clean energy to over **10,000** MW in next 12-24 months

surge in power demand, Tata Power is well-positioned to capitalise on the growth momentum with its cuttingedge, customised and costeffective clean and green energy solutions."

PepsiCo's India growth in

'mid-single digit' in 2023

Globally, PepsiCo saw a

net revenue of \$91.47

billion in 2023, registering

a growth of 5.9%

India each delivered mid-sin-

gle-digit growth," PepsiCo said.

enue in Africa, the Middle East,

South Asia (AMESA) division,

including India, was at \$6.14

billion, a decline of 4.64%. This

However, PepsiCo's net rev-

The generation business posted a profit before tax (PBT) of ₹860 crore on revenues of ₹4,958 crore, while the renewables business posted a PBT of ₹463 crore on a revenue of ₹2,484 crore.

The transmission and distribution business posted a PBT of ₹612 crore on a revenue of ₹8,450 crore.

During Q3, the share of core business, including generation, transmission and distribution business, stood at 71% against 39% a year ago.

Tata Power also won its first-ever project under the tariff-based competitive bidding process during the quarter. As of December 31, 2023, the company's operational capacity was at 4,270 MW in the renewables segment, generating 6,031 mega units of green power.

Another 4,752 MW of projects under TPREL (Tata Power Renewable Energy) and 4,120 MW of projects under TPSSL (Tata Power Solar Systems) are under execution, thus taking the total clean energy capacity to over 10,000 MW in the next 12-24 months, Tata Power said.

"primarily reflected a 21-per-

centage-point impact of

unfavourable foreign exchange, driven primarily by the weaken-

ing of the Egyptian pound, and

a net organic volume decline.

partially offset by effective net

businesses will perform well in

2024. Category growth rates

are normalising," said chair-

man and CEO Ramon

"We are confident that our

pricing," it said.

Laguarta.

Biocon arm to focus on consolidation in FY25

BIOCON BIOLOGICS WILL

ITS ACQUISITION OF

IN THE NEXT FISCAL

BIOSIMILARS BUSINESS

FOCUS ON CONSOLIDATING

LONG-TIME PARTNER VIATRIS'

In Europe, the firm is focusing on five high-growth nations

AYANTI BERA

Bengaluru, February 9

BIOCON BIOLOGICS, A subsidiary of pharma major Biocon, will focus on consolidating its acquisition of long-time partner Viatris' biosimilars business in the upcoming fiscal, in an effort to set a stage for its next phase of growth, CEO and MD Shreehas Tambe told *FE* on Friday.

The company recently completed the integration of the global biosimilars business of Viatris, which it

had acquired in 2022 for

The acquisition is expected to help the company get access to commercial capabilities and supporting infrastructure in over 120 countries.

\$3.34 billion.

Even before the full-impact of the acquisition is seen, Bio-

con's biosimilar business managed to post a 65% rise in sales to ₹2,483 crore in the third quarter of FY24, as its biosimilars gained market

In US, Semglee, its longacting man-made-insulin, held a steady market share at about 12%, while Fulphila,

share cross geographies.

used to decrease the chance of infection, maintained around 18% market share, and Ogivri, used to treat early-stage breast cancer, had a market share of about 12%.

"In Europe, where we have seven products approved, the strategy is changing because in the past, it was only two products and two countries that the business was operational in. But now, we will operate with seven products and more than these two countries," Tambe said.

So growth in the third quarter has come from emerging markets significantly through tenders, a lot from retail in Europe and some of the big peers onboarding us in the US, he noted.

In Europe, the company is focusing on five high-growth countries — France, Germany, UK, Spain and Italy.

On Thursday, it's parent Biocon posted a revenue from operations of ₹3,954 crore in Q3, up 34% year-on-year. It swung back to profit in Q3 at ₹660 crore, compared to the loss of ₹42 crore in the year-

The bottomline was mainly strengthened by income from the divesture of two non-core business assets — Biocon Biologics' Dermatology and Nephrology branded formulations business units in India amounting to ₹350 crore and a gain of ₹456 crore from Biocon's stake dilution in Bicara Therapeutics.

ago period.

SUNDARAM BRAKE LININGS LIMITED

CIN:L34300TN1974PLC006703

SHREEHAS TAMBE, CEO & MD, BIOCON BIOLOGICS

Regd Office: Padi, Chennai - 600 050, Tel:044-26257853; Fax: 044-26254770

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023

S.		Quarte	r ended	Nine months ended		Previous Year Ended
No.	Particulars	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		(Unaudited)		(Unaudited)		(Audited)
1	Total Income from operations	8,486.11	8,768.04	26,464.14	26,541.94	35,760.38
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	370.43	(287.91)	1,130.59	(760.71)	(539.75)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or extraordinary items)	370.43	(287.91)	1,130.59	(760.71)	(539.75)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or extraordinary items)	315.80	(286.41)	951.48	(693.93)	(478.16)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	315.80	(286.41)	951.48	(693.93)	(522.11)
6	Paid up Equity Share Capital-Face Value-Rs.10/- each	393.46	393.46	393.46	393.46	393.46
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			8,147.57		
8	Earnings Per Share (EPS) (Face Value-Rs.10/- each) (not annualised) - in Rs. i) Basic - in Rs. ii) Diluted - in Rs.	8.03 8.03	(7.28) (7.28)	24.18 24.18	(17.64) (17.64)	(12.15) (12.15)

Note:

Place: Chennai

Date: 09.02.2024

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the stock exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

Visit our website : www.tvsbrakelinings.com

On behalf of the Board For SUNDARAM BRAKE LININGS LIMITED KRISHNA MAHESH MANAGING DIRECTOR

INR crores

INR crores







Honasa Consumer Limited

(formerly known as Honasa Consumer Private Limited)

CIN: U74999DL2016PLC306016

Registered office: Unit No - 404, 4th floor, City Centre,

Plot No 05, Sector-12, Dwarka, New Delhi – 110075, India

Website: www.honasa.in; Email: compliance@mamaearth.in; Telephone: 011-44123544

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

(Amount in Rs. Million)

0			Quarter ended		Nine mon	Previous year ended	
S No.	Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	4,882.15	4,961.08	3,821.58	14,488.10	11,048.93	14,927.48
2	Profit before exceptional items and taxes	347.19	392.05	106.53	1,078.76	197.81	136.57
3	Profit/(Loss) before tax	347.19	392.05	106.53	1,078.76	197.81	(1,410.40)
4	Profit/(Loss) after tax	259.01	294.38	71.25	800.53	107.92	(1,509.66)
5	Total comprehensive income/(loss), net of tax	260.86	297.84	74.06	802.31	111.68	(1,506.87)
6	Equity Share Capital	3,217.47	1,363.36	1,363.36	3,217.47	1,363.36	1,363.36
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		-	-	-	-	-
8	Earnings/(Loss) per equity share (of Rs.10/- each)						
	a) Basic	0.82	0.96	0.31	2.62	0.56	(4.66)
	b) Diluted	0.81	0.93	0.29	2.59	0.55	(4.66)

Note:

(a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.honasa.in.

(b) Additional information on Standalone Financial Results is as follows:

		Quarter ended			Nine mon	Previous year ended	
S No.	Particulars	December 31,	September 30,	December 31,	December 31,	December 31,	March 31,
		2023	2023	2022	2023	2022	2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	D	4.500.02	4.601.02	2 540 56	12 272 22	10 244 77	12.040.02
	Revenue from operations	4,508.92	4,601.93	3,548.56		10,344.77	13,948.03
2	Profit/(Loss) before tax	370.69	475.69	190.85	1,214.35	405.48	(1,072.84)
3	Profit/(Loss) after tax	289.14	377.36	151.54	942.54	309.34	(1,205.56)

For and on behalf of Board of Directors of **Honasa Consumer Limited**

Varun Alagh

Chairperson, Whole Time Director and CEO

Gurugram

financialexp

DIN:07597289 February 9, 2024





CIN: L93030DL2010PLC198141 Registered office- Ground Floor, 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi- 110019, Delhi, India Telephone- 011-40592373, Email- companysecretary@zomato.com, Website- www.zomato.com

Zomato Limited

Extract of consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

			Quarter ended		Nine mon	Year ended	
S.No.	Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income	3,507	3,060	2,121	9,164	5,534	7,761
2	Profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	124	21	(364)	130	(810)	(1,015)
3	Profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	124	21	(364)	130	(810)	(1,015)
4	Profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	138	36	(347)	176	(783)	(971)
5	Total comprehensive income/ (loss) for the period/ year	149	(1)	(343)	191	(907)	(1,070)
6	Paid-up share capital	857	845	836	857	836	836
7	Other equity ¹ as on March 31, 2023						18,624
8	Earnings / (loss) per share (INR) ² (face value of INR 1 each)						
200	(a) Basic	0.16	0.04	(0.42)	0.21	(0.98)	(1.20)
	(b) Diluted	0.16	0.04	(0.42)	0.20	(0.98)	(1.20)

The Company does not have any revaluation reserve. EPS is not annualised for the guarter and nine months ended December 31, 2023, quarter ended September 30, 2023 and guarter and nine months ended December 31, 2022

Notes:

(a) Exceptional Item includes

(a) Exceptional item includes:										
		Quarter ended				Year ended				
Particulars	December 31, 2023		December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023				
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
Gain on sale/ disposal of investment	0	0.0	(2)	23		0				
Total			*			0				

(b) Standalone information:

Date: February 08, 2024

Place: New Delhi

		Quarter ended	Nine mon	Year ended		
Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income	2,018	1,825	1,416	5,449	4,096	5,507
Profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	385	315	62	976	(65)	117
Profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	385	315	62	976	(65)	117
Profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	384	315	62	975	(65)	117

(C) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.zomato.com).

For and on behalf of the board of directors of Zomato Limited

Kaushik Dutta

(Chairman and Independent Director) (DIN-03328890)

New Delhi

Hyundai picks JPMorgan, Citi to accelerate \$3 bn IPO

New Delhi, 9 February

yundai Motor has appointed investment bankers JPMorgan and Citi to advise on its at least \$3 billion initial public offering (IPO), accelerating listing plans in the world's thirdlargest auto market, sources with direct knowledge said. The company plans to file regulatory papers by May to June for an approval, said two of the three sources, all of whom declined to be named as the talks are private.

Citi and JPMorgan, Hyundai's Indian unit



The company plans to file the regulatory papers by June

declined to comment.

In a statement, Hyundai said it had "no further update at this stage", referring Reuters to its statement earlier this week that the India listing has not been decided, and that it would comment on the matter when the plan becomes final-

ised or within a month. Hyundai is in the initial stages of considering an IPO

local operation at up to \$30 billion, Reuters reported this week. The IPO could be the country's largest. Such a fundraising by Hyundai would put the valuation of its Indian operation at more than half its market capitalisation of around \$47 billion in Seoul.

Some domestic investment banks are also likely to be appointed for the IPO in coming months, the two sources added. IPOs in India boomed in the second half of 2023, and bankers expect this to continue in 2024 amid hopes for political stability after upcoming elections.

'Festival demand didn't meet expectations'

Honasa Consumer, the parent company of direct-to-consumer (D2C) brand Mamaearth, posted a 264 per cent year-on-year increase in its net profit to ₹25.9 crore in the December quarter. In a telephonic interview, VARUN ALAGH, chairman and chief executive officer (CEO) of Honasa Consumer, tells Aryaman Gupta about the company's Q3 performance, challenges, and plans. Edited excerpts:

What has driven profits in this quarter? We are seeing leverage on two fronts. As we are scaling overall, both our advertising expenses and operational expenditures are growing at a much slower pace, leading to improvements in Ebitda (earnings before interest, taxes,

On a quarter-on-quarter basis, both profits and revenues are down 12 per cent and 1.5 per cent respectively. What is the reason?

depreciation, and amortization).

We have seasonality in our business. Hence, we are not a business that should be seen sequentially. Moreover, in the last quarter, we had seen disproportionate ESOP gains, which did not take place in

this quarter. We also took on certain expenses in this quarter that we should have ideally been placed over the last three quarters.

> What is the kind of demand that you witnessed during the festival season?

Overall, there was an increase

in demand, which is why we have delivered growth in this quarter. But we did not see the kind of demand that we had expected,

especially on e-commerce platforms. There is a short-term consumption slowdown.

Do you expect any challenges in the near

The consumption slowdown is real, but I don't expect it to last. At best, it will linger till the elections. In the long term, the

beauty and personal care growth story is very much intact.

> Are advertising and promotion still the biggest cost drivers?

Yes. We are in the business of brand building. We are a young brand, competing with legacy brands. So, we need to drive awareness among the consumers. Hence, it (ad spend) continues to

be our largest cost.

Internship Announcing the commencement D'Practice of the second Learning & Experience edition of the Business Standard Rahul Khullar Internships



critical areas.

administrator who influenced

and steered government policy in several

We received an overwhelming

response for the six internship

positions – we stopped

wound to a close.

counting at 173 as 2023

The first screening

brought the number

down to 36, and the

second screening to a

for video interviews.

Kashmir, Srinagar

shortlist of 22 who appeared

We now have our six interns (in

ATTAUL MUNIM ZAHID: University of

alphabetical order of first names):

This is a programme KALEEM GEELANI: Islamic University of Science and Technology, Pulwama Business Standard and the

KOMAL VERMA: Delhi School of Journalism, Delhi University

OJASVI GUPTA: Bharati College, Delhi University

VIDUSHI SINHA: Lady Shri Ram College for Women, RAHULKA Delhi University

> The one-month internship will provide the six young journalists the opportunity to work at our New Delhi office until the first week of March 2024, covering economic policy and governance issues. Each will earn a stipend of ₹30,000.

We look forward to a renewed rhythm and

beat of energy and ideas in our office. **DVLS PRANATHI: Symbiosis Centre for** Media and Communication, Pune

Business Standard

Insight Out

Chaman Lal Setia Exports Ltd.

Records Highest-ever Quarterly Profits

03 FY 2024 Revenue up 30% Sequentially and 10% YoY

EBITDA at Rs. 52 Crore



EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2023

	(Rs. In lakhs except EPS data)											
Sr. No	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Nine Months	Year Ended						
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023						
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)						
1.	Total Income from Operations (net)	40007.05	30867.68	35388.78	97210.00	138734.63						
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5163.72	3511.74	5013.32	12356.62	15720.04						
3.	Net Profit for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5163.72	3511.74	5013.32	12356.62	15720.04						
4.	Net Profit for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3868.88	2622.90	3746.14	9238.68	11766.79						
5.	Total comprehensive income for the period	3868.88	2622.90	3746.14	9238.68	11766.79						
6.	Equity Share Capital	1034.67	1034.67	1034.67	1034.67	1034.67						
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)					59811.01						
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)*											
	Basic:	7.49	5.07	7.23	17.87	22.76						
	Diluted:	7.49	5.07	7.23	17.87	22.76						
	*Not Annualised											

The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31.12.2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and Nine months ended on 31.12.2023 are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as on the Company's Website at (www.clsel.in).

For CHAMAN LAL SETIA EXPORTS LTD. (RAJEEV SETIA)

Joint Managing Director & CFO (DIN. 01125921) LAL SETIA EXPORTS

Maharani

PLACE: GURUGRAM

DATED: 08.02.2024











Regd. Office: Meerankot Road, P.O. Central Jail, Ajnala Road, AMRITSAR-143002 (INDIA) Corpt. Office: 472, Udyog Vihar Phase 3, Gurugram RICE MILLS: Karnal - Kaithal Road | Gujarat - Gandhidham Ph: +91 124 4745900 E-mail: clsetia@rediffmail.com Website: www.clsel.in, www.maharanirice.in





PAT Up by 642%

Honasa Consumer Limited (formerly known as Honasa Consumer Private Limited)

CIN: U74999DL2016PLC306016

Registered office: Unit No. 404, 4th floor, City Centre, Plot No 05, Sector-12, Dwarka, New Delhi-110075, India Website: www.honasa.in: Email: compliance@mamaearth.in: Telephone: +91 124 4071960

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2023

Previous yea S No Particulars December 31 September 30. December 31 December 31. December 31. March 31. 2023 2022 2023 2023 2023 4,882.1 3,821.58 11,048.9 14,927.4 Profit before exceptional items and taxes 392.05 1,078.76 (1,410.40 347.19 392.05 106.53 1,078.76 197.81 Profit/(Loss) before tax Profit/(Loss) after tax 259.01 294.38 71.25 800.53 107.92 (1,509.66 (1,506.87 Total comprehensive income/(loss), net of tax 260.86 297.84 74.06 802.31 111.68 Equity Share Capital 3.217.47 1.363.36 1.363.36 3.217.47 1.363.36 1.363.30 Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings/(Loss) per equity share (of Rs.10/- each) 0.96 0.82 0.31 2.62 0.56 (4.66) b) Diluted 0.81 0.93 2.59 0.55 (4.66)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com and www.hseindia.com and on the company's website www.honasa.in

Additional information on Standalone Financial Results is as follows:

(Amount in Rs Million)

			Quarter ended		Nine mon	Previous year ended	
S No.	Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	4,508.92	4,601.93	3,548.56	13,372.22	10,344.77	13,948.03
1							
	Profit/(Loss) before tax	370.69	475.69	190.85	1,214.35	405.48	(1,072.84)
2	· ·	370.69 289.14	475.69 377.36	190.85 151.54	1,214.35 942.54	405.48 309.34	(1,072.84) (1,205.56)

For and on behalf of Board of Directors of **Honasa Consumer Limited**

Varun Alagh

Chairperson, Whole Time Director and CEO

DIN:07597289

Gurugram

February 9, 2024









Weisshorn Realty Private Limited

(formerly known as Picard Angst India Private Limited) CIN: U70109DL2019FTC352561

H. NO-1490 BAL MIKI MOHALLA – VILLAGE TUGHLAKABAD, NEW DELHI, INDIA - 110044

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIALS RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Amounts in Rs. thousand except as stated)

2300			Quarter ended	9	Nine Mont	For the year ended	
S.No	Particulars	December 31, 2023 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	30,810	10,434	_	48,778		3,193
2	Profit / (Loss) for the period before tax	(6,727)	(36,152)	(542)	(72,784)	(1,088)	(14,751)
3	Profit / (Loss) for the period after tax	(6,727)	(36,152)	(542)	(72,784)	(1,088)	(14,751)
4	Earnings / (Loss) per equity share in Rs.: (1) Basic (2) Diluted	(9.61) (9.61)	(51.65) (51.65)	(0.77) (0.77)	(103.98) (103.98)	(1.55) (1.55)	(21.07) (21.07)
5	Paid up equity share capital (Face value: Rs.10 per Share)	7000	7000	7000	7000	7000	7000

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular 5th July, 2016. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) BSE Limited (www.bseindia.com).

b) The above results were reviewed and approved by the Board at its meeting held on 9th February 2024

For Weisshorn Realty Private Limited (formerly known as Picard Angst India Private Limited)

Ajay Sirohi Director DIN:07634663 Date: 09/02/2024

Date: 09/02/2024 Place: Delhi

UCO BANK

परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा, भूतल, युको बँक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23753278 शब्दि पत्र / विस्तारित

कपया 28/12/2023 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित 09/02/2024 को 13:00 बजे से 17:00 बजे के बीच सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए "ई-नीलामी बिक्री सूचना" कर्जदार का नामः श्री हीरा लाल सागर, श्रीमती रेखा सागर के विज्ञापन का सन्दर्भ लें। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्राधिकत अधिकारी ने ई-नीलामी की तिथि 09.02.2024 से बढ़ाकर 20.02.2024 को 13:00 वजे से 17:00 वजे तक कर दी है (10 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तारों के साथ बोलियाँ रू.1.00 लाख के गुणकों में होंगी)। निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः 19.02.2024. अन्य सभी प्राधिकृत अधिकारी, युको बैंक (प्रतिभूत ऋणदाता)



आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड [सीआईएन: L74140DL1991PLC340407]

पंजीकृत कार्यालयः 72, भूतल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 | फोन:+91 9810266747 ई-मेल : www.imcapitalscompliances@gmail.com, वेबसाईट : www.imcapitals.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमी (ओएवीएम) और मतदान निर्देश के माध्यम से आयोजित होने वाली 01 / 2023—24 असाधारण आम बैठक के संबंध में आईएम+कैपिटल्स लिमिटेड के शेयरधारकों के ध्यान के लिए सूचना

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 01/2023-24 असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") सोमवार, 04 मार्च, 2024 को अपराह 03:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधान, कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ पढ़ें मामले ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("संबी") (सामृहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित), ईजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए उसके के अनुपालन में आयोजित होगी

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को ईजीएम में उपस्थित माना जाएगा और उनकी उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए मानी जाएगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, व्याख्यात्मक विवरण और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, शुक्रवार 09 फरवरी, 2024 को मेजी गई हैं केवल कंपनी के उन सभी सदस्यों को ईमेल करें जिनके ईमेल पते कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024. तारीख को कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट instavote linkintime.co.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को वीडियो कॉन्क्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने के लिए एक मंध प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-वोटिंग और बैठक और वोटिंग से संबंधित डेटा के प्रसंस्करण आदि के मध्यम से बैठक आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को संभालना और पर्यवेक्षण करना। इसके अलावा, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ईजीएम में शामिल होने के निर्देश और भागीदारी के तरीके नोटिस

में दिए गए हैं। ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः

ए) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पत्ते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे कंपनी को निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक रूपों में imcapitalscompliances@gmail.com पर मेल द्वारा अनुरोध भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं। (फॉर्म आईएसआर-1 कंपनी की वेबसाइट www.imcaptals.com पर उपलब्ध है)। बी) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित ढीपी के साथ अपना ईमेल पता

पंजीकृत/अपडेट करें। कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और ई–वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024 को शेयर रखता है, वह उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जैसा कि ईजीएम के नोटिस में दिया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com और लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य ईजीएम के नोटिस में कंपनी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। ईजीएम के दौरान रिमोट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग के लिए निर्देश:

ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के अनुपालन में कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी किए गए सचिवीय मानक - 2 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 44, यथासंशोधित, के अनुसार कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-बोटिंग') द्वारा ईजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है ।सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों ('रिमोट ई-वोटिंग") पर लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग

प्रणाली का उपयोग करके दरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। बीं) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा ईजीएम ('इंस्टा पोल') पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वोट करने में सक्षम होंगे। इंस्टा पोल के माध्यम से

 कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की सेवाएं ली हैं।

घ) ई-वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी और निर्देश सदस्यों

को ई-मेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए समान लॉगिन क्रेडेशियल का उपयोग किया जाना चाहिए

ई) डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल द्वारा वोटिंग का तरीका ईजीएन के नोटिस में प्रदान किया गया है और कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और लिकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की वेबसाइट instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी : रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत : 01 मार्च, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति : 03 मार्च, 2024 को साथ 05:00 बजे (आईएसटी)

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को तरंत अक्षम कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे ईजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार 02 फरवरी, 2024 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

इंजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग, ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी /ओएवीएम के माध्यम से

ईजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य इंस्टावोट-लिकइनटाइम पर उपलब्ध एफएक्यू और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या enotices@linkintime..co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या 022-49186000 पर कॉल करें। सुश्री चेतना भोला (एकसीएस 41283) मेसर्स की एसोसिएट पार्टनर मैसर्स चेतना भोला एंड

एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और ईजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-बोटिंग की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ई-बोटिंग के नतीजे और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com पर अपलोड की जाएगी और बीएसई लिमिटेड, जहां कंपनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं, उन्हें सूचित किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोटस और विशेष रूप से ईजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ईजीएम में ई-वोटिंग (इंस्टा पोल) के माध्यम से वीट डालने के तरीके को ध्यान से पढें।

कृते आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड,

साक्षी गोयल कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबिक, अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रम** शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री रितु श्रीधर को एक मांग सूचना दिनांकित 25-09-2023 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 23,11,319/- (रु. तेईस लाख ग्यारह हजार तीन सौ उन्नीस मात्र) और भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इयादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सम्पत्ति का **कब्जा** सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 07-02-2024 को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **युनियन बैंक ऑफ** इंडिया, के प्रभार वास्ते राशि रू 23.11,319/- और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन

उधारकर्ता का घ्यान एक्ट की घारा 13 की उप घारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. सी-301, द्वितीय तल, जिसका सुपर क्षेत्रफल 101.9 वर्ग मी., साथ में सेनीटरी, स्वच्छता, विद्युत और अन्य फिटिंग, प्लॉट नंबर डी-35ए/2, सेक्टर-48, ग्रुप हाउसिंग स्कीम "मांडेश्वरी सहकारी आवास समिति लिमिटेड", नोएडा-201301 (यूपी) में स्थित, पंजीकरण उप-जिला-द्वितीय, सदर एवं जिला गौतमबुद्धनगर, उ.प्र., चीहदी: उत्तर पूरव में – खुली और नीचे की ओर रोड़, पश्चिम में – खुली, पूरव में - फ्लैट नं. सी-302, उत्तर - पश्चिम में - खुली दिनांकः 07.02.2024, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

सेहानी शाखा, पो.ऑ. मेरठ रोड, सेहानी, गाजियाबाद कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सेंट्ल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी शाखा, गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 07/06/2023 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदारों: श्री संजीत कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश एवं श्री सतीश कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी म. नं. 56, महेन्द्र एन्क्लेव, एच-ब्लॉक, शास्त्री नगर, गाज़ियाबाद, उ०प्र0-201002, साथ ही श्री संजीत कुमार मालिक तान्या रेडीमेड **गारमेंट,** दुकान—1, मावल रोड, विजय नगर, गाजियाबाद, उ०प्र0—201009 एवं श्री सतीश कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी म. नं. 56, महेन्द्र एन्क्लेव, एच—ब्लॉक, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उ०प्र0—201002 एवं **श्रीमती राज बाला** पत्नी श्री वेद प्रकाश, निवासी म. नं. 56, महेन्द्र एन्क्लेव, एच-ब्लॉक, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उ०प्र0-201002, को सूचना में उल्लिखित राशि रु.19,69,516.58 (उन्नीस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ सोलह रूपये एवं अठावन पैसे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदारों के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 08/02/2024 को ले लिया है। कर्जदारों को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.19,69,516.58 (उन्नीस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ सोलह रूपये एवं अठावन पैसे मात्र) + दिनांक 08/02/2024 को अर्जित ब्याज एवं उस पर लागू ब्याज / शुल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी शाखा, गाजियाबाद के प्रभार के भूगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो श्रीमती राज बाला पत्नी श्री वेद प्रकाश के नाम पर, एच-56, महेन्द्र एन्क्लेव, गाँव-राजापुर, डासना, गाजियाबाद, उ०प्र0-201002 में स्थित है। जिसकी माप 63.75 वर्ग गज (53.30 वर्ग मीटर) (उप-रजिस्ट्रार V, गाजियाबाद के कार्यालय में बही नम्बर 1, जिल्द नम्बर 2026, पेज नम्बर 222 से 231, दस्तावेज नम्बर 3364, दिनांक 18 / 07 / 2008 के तहत पंजीकृत)

स्थानः गाजियाबाद ाताथः 08/02/2024 प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया, सहामी भाषा, गावियातार







Honasa Consumer Limited

(formerly known as Honasa Consumer Private Limited)

CIN: U74999DL2016PLC306016

Registered office: Unit No - 404, 4th floor, City Centre, Plot No 05, Sector-12, Dwarka, New Delhi – 110075, India

Website: www.honasa.in; Email: compliance@mamaearth.in; Telephone: 011-44123544

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

(Amount in Rs. Million)

		-12	Quarter ended		Nine mon	Previous year ended	
S No.	Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	4,882.15	4,961.08	3,821.58	14,488.10	11,048.93	14,927.48
2	Profit before exceptional items and taxes	347.19	392.05	106.53	1,078.76	197.81	136.57
3	Profit/(Loss) before tax	347.19	392.05	106.53	1,078.76	197.81	(1,410.40)
4	Profit/(Loss) after tax	259.01	294.38	71.25	800.53	107.92	(1,509.66)
5	Total comprehensive income/(loss), net of tax	260.86	297.84	74.06	802.31	111.68	(1,506.87)
6	Equity Share Capital	3,217.47	1,363.36	1,363.36	3,217.47	1,363.36	1,363.36
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	· [
8	Earnings/(Loss) per equity share (of Rs.10/- each)						
	a) Basic	0.82	0.96	0.31	2.62	0.56	(4.66)
	b) Diluted	0.81	0.93	0.29	2.59	0.55	(4.66)

Note:

- (a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.honasa.in.
- **(b)** Additional information on Standalone Financial Results is as follows:

			Quarter ended	27	Nine mor	Previous year ended	
SNo	. Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2 3	Revenue from operations Profit/(Loss) before tax Profit/(Loss) after tax	4,508.92 370.69 289.14	475.69	190.85	1,214.35	405.48	(1,072.84)

For and on behalf of Board of Directors of **Honasa Consumer Limited**

Varun Alagh

Chairperson, Whole Time Director and CEO

DIN:07597289 Gurugram

February 9, 2024

रोनक इंटरनेशनल लिमिटेड

(पूर्व नामित रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) ई-मेलः info@raunagintl.com वैबसाइटः www.raunaginternational.com सीआईएनः L51909HR1965PLC034315

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (₹ लाखों में)

समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त नौ माह सं 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 विवरण 31.12.2023 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) 1. परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) 167.54 64.11 137.35 268.40 468.28 576.93 37.24 (1.61) (282.54) सहभागी के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले अवधि (46.04) (121.08) (1.58) के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (282.54) सहभागी के लाभ/(हानि) के हिस्से के बाद, लेकिन कर (46.04) 37.24 (121.08) (1.58)(1.61) से पूर्व (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं से पहले) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) 4. अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (282.54) (46.04) 37.24 (121.08) (1.61) (1.58)(अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद) 38.17 16.19 अवधि के लिए कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (59.02) 0.57 (238.00)(41.95)(अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद) 6. अवधि के लिए कल व्यापक आय। जिसमें अवधि के लिए 40.07 6.28 15.51 (230.39) (40.05) (59.47) लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है] 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 7. समता अंश पुंजी 334.32 8. प्रतिअंश आय ₹10/- प्रत्येक (*अवार्षिकृत) मूल एवं तरल *(1.25) *1.14 *0.02 *0.48 *(1.77) (7.12)

टिप्पणियाँ: उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गये समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का एक उद्धरण है। समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वैबसाइट www.bseindia.com एवं कंपनी की वैबसाइट www.raunaginternational.com पर उपलब्ध हैं।

2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षाकृत एवं सिफारिश के पश्चात् 09 फरवरी, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

सुरिदर पॉल कवर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



यूनिट 602 ए, टॉवर बी, कोनक्टस, भव भूति मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विपरीत, अजमेरी गेट की तरफ, नई दिल्ली -110001

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 / 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभृत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी

तिथि : 09 फरवरी, 2024

(सांकेतिक कब्जे के अंतर्गत)

ह	के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारटसे और बंधककर्ताओं की प्रत्याभूत — दाता यूर्नि	नेयन बैंक ऑफ इंडिया से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दि	नाको को बेचा जाएगा। आर्रा	वेत मूल्य और अग्रिम धनराशि	नीचे वर्णित रूपए होगी।	
क्र	. बैंक शाखा / कर्जदार और गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कर्जदार / गारंटर से वसूल की जाने वाली राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	
	श्री मनोज कमार गाँड (उधारकर्ता) श्रीमती पवन गाँड (सह-उधारकर्ता), मकान नं.	रिहायशी फ्लैट क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट (प्लॉट क्षेत्रफल 1798 वर्ग फीट) पीछे की तरफ, भूतल सम्पत्ति नं. ए—15 / जी2 (नीचला भूतल) डीएलएफ दिलशाद गार्डन एक्स।।, गाजियाबाद, यू.पी—201001 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मनोज कुमार गौड़ पुत्र श्री राम निवास शर्मा के नाम पर है। चौहदी: उत्तर में — रोड़, दक्षिण में — रोड़ / प्रवेश, पूरव में — ए—14, पश्चिम में — ए—15ए (सांकेतिक कब्जे के अंतर्गत)	भविष्य का ब्याज एवं प्रमार	रु. 13,00,000/- रु. 1,30,000/- रु. 13,000/-	14-03-2024 पूर्वो. 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	
	110068 श्री रशीद अहमद, फ्लैट नं. 1, पहली मंजिल, एफ—81, गली नं. 14/5, साध नगर, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली—110045 <u>औरः</u> मकान नं. डब्ल्यूजेड—31, तीसरी मंजिल, ओबीसी के पास बैंक, पालम विलेज, नई दिल्ली—110045, <u>औरः</u> सी/ओ बॉम्बे मास्टर, शफीक मंजिल, मकान नं. 1604, एटी—बालू बाजार, डाकघर— सुनहत,	प्रथम तल (फ्लैट नं. 1) संपत्ति नं. एफ—81 के उत्तरी पूर्वी हिस्से की ओर, गली नं. 14/5, इसकी बिना छत के अधिकार के, प्रवेश के सामान्य अधिकारों के साथ, मार्ग, सीढ़ी और सबमर्सिबल, उसके अधीन भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ, क्षेत्रफल 50 वर्ग. गज अर्थात 41.805 वर्ग. मी., उक्त संपत्ति के स्टिल्ट फ्लोर पर सामान्य पार्किंग क्षेत्र में एक दोपहिया वाहन के लिए सामान्य पार्किंग स्थान के साथ, खसरा नं. 90/5/1 का हिस्सा, आबादी जिसे अब साथ नगर कहते हैं, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली—110045 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रशीद अहमद पुत्र एसके हफीजुद्दीन के नाम पर है। चौहदी: उत्तर में — अन्य की संपत्ति, दक्षिण में — उक्त संपत्ति का शेष भाग, पूरव में — अन्य की संपत्ति, पश्चिम में — उक्त संपत्ति का शेष भाग	भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित	ক. 21,19,000/- ক. 2,11,900/- ক. 21,190/-	14-03-2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतू, कृपया दिए गए लिंक https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp को देखें

दिनांक: 09-02-2024, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक : 09-02-2024

स्थान : नई दिल्ली

प्रधानमंत्री बोले. यह आय बढ़ने और गरीबी घटने का समय है

तेजी के साथ बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था : मोदी

उपलिध

वर्ड दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र न्या राजनात , एजसात , प्रधाननाज नरह मोदी ने शुक्रकार को कहा कि भारत में यह जह समय है जन्म हमारी अर्थिक पृद्धित्ताराज्य चढ़ सो है और राजनेत्रीय धाटा कम हो रहा है। यह आथ कहने और गरीबी घटने का समय है।

यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपटन, विकास और विधिन्नीकरण की वर्षा के कीच यह चारत का समय है। वरत पर दुनिया का भरोसा लगातार इट रहा है। पीरम मोटी ने करा कि यह समय है जब हमारी आधिक पुद्धि तार बढ़ रही है और राजकोषीय रीकी घटने का समय है। मोदी ने कहा। हुआ था। ऐकी विश्ववार्ग, जो बेटी कभी

आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग

अराद अपनि प्राप्ति कर्म के मुख्यमंत्री अन्य मीत्र ने श्री ने गुड़कर को प्रधानमंत्री ने गुड़कर को प्रधानमंत्री नहीं करने मीत्र ने मुख्यमंत्री अन्य मीत्र ने मीत्र ने स्वीवन प्रधानमंत्री ने मात्र की मात्र की आपनि प्रधानमंत्री के मात्र की आपनि मात्र की आपनि मात्र की आपनि मात्र की आपनि मात्र की अपनि मात्र की मात

कि गांधी के तम पर उद्योग घलाने . पैदाडी नहीं हुई थी। हमने ऐसे 10 करोड़

कि मानि के जान मा उद्योग पानने पानों को असरे हुन्यों को 2001 की कार्यों ने जाने में स्टारण पाने कार्यों पड़ी थी। चीते दरा वर्ष में 25 करोड़ होंगा गानिकी से बाद कर पुंच हैं। करोड़ करा क्षारण (एक पाने हैं) करा, हमारे पड़ा करिस सरकार के पुंच के क्षारण कर से कर के कार्य प्रमान के ही समारों में 10 मोड़ हमें प्रमान के ही समारों में 10 मोड़ हमें प्रमान कर के कर देने की करती हमारों के क्षारण कर कर होंगे हमारे के लिए कार सारों हमारे करा हमारों के क्षारण कर कर के कार्यों हमारे कि लिए क्षारण कर कर देने की करती हमारों के क्षारण कर कर के कार्यों हमारे के लिए कार्यों हमारे करा हमारों हमारे के लिए के क्षारण हमारे कर के कार्यों हमारों हमारे के लिए क्षारण हमारे कर के कार्यों हमारों के कार्यों हमारों हमारों हमारे के लिए क्षारण हमारे कर के कार्यों हमारों के क्षारण के क्षारण कर कर हमारों हमारे के कार्यों हमारे के कार्यों हमारों हमारे के कार्यों हमारों हमार पिताले डेड श्वास में बन रहा है।

'किसानों की आय बढ़ाने के लिए और प्रयास की जरूरत'

अपना देश

कर सकते हैं। हालांकि, व्हेलेजों की जिम्मेदारी हैं कि वे पीजी वाजों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करें।

न्हें किस्सी, एजेंसी। राष्ट्रपति डीवटी मुर्गुने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानी की अशब बढ़ाने के लिए तेजी से प्रवास कर रही है। उनको परीकी से बाहर निकालने के लिए अभी और आविक प्रयास की जरूरत है। उन्हेरि कडा कि किस्तान ने केवल अन्यदाता है, बलिक जीवनदाता भी हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं।

योगधान देशो हैं। राष्ट्रपति ने ये बातें शुक्रधार को पूसा पतिसर में आयोजित आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आएअर-आई) में 62यें दीस्रोत समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। गुरुवार को दिल्ली एनमीआर क्षेत्र के हुजारों कि ग्लंट एसाआत छूने के हजारों किसानों द्वारा विधिन गोरी की लेकर किए गए प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ये कड़ा कि हम आपकी समस्याओं से अवगत है।

अपन भी कई किसान गरीबी में जी आज पा चड़ किसान नरावा प पा रहे हैं। उन्हें (उनकी उपज के लिए) सही कीयत फिले और आरोडिक्स में मूचार हो, इस दिशा में और भी कड़े कदम उठाने की जरूनत है।

िराजनी सेट्री रेज कर्राचरित्रण विश्वविदेश (भारत सामार हमें विश्वविद्याला का हम संदूष्ण प्रधार)

प्रेस अधिसूचना भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालव

रेल संरक्षा आयोग

रश्नं सरक्षा आयोग की जनक कुमार गर्म, बेट्टी देत संबंधा आयुक्त, नई डिक्टी, गारत विधानन भारता शरकार के आगैन, 08.02.2024 की पूर्वोहन 11:04 को लाईन-7 के गोकानुदर्ज मेट्टी स्टेशन के पोरकार्ज की प्रोधेकरी पीत का एक डिक्टा ताइक घर मिर्टी के कारण हुई पूर्वाटना के संबंध में एक जांच मेट्टी शवन के सम्मेदन कर्म, गर्चा एम. सम्बद्ध डिक्टेंड केन. प्राराखन कर्म, गर्च डिस्टी-110001 में 1012.2024 की पूर्वोहन 11:00 बाते संअपन होनी।

किसी भी जनसाधारण की, जो दुर्घटना के संबंध

तक्ता भा जनस्तात्वार के जो दुस्तान के राज्य ने कोई आनकारी रखात है और साध्य देने का इच्छुक है वह आप वी तिथि की जब्दुंक्त स्थान पर ऐसा कर राकता है अथवा मेट्टी रेस संस्था आयुक्ता को cmrs-moca@govin पर रिस्तकर मेजें।


छात्रों को हॉस्टल में रहने के लिए बाध्य न करें: एनएमसी

मई रिश्नी, विक्रोच संवाददाना। भारतीय चिकित्ता आयोग (एनएसमी) ने कहा है कि बेटिकल कोलेज चेक्ट केजूपट (चीजी) जावें को हॉनटल में रहने के लिए बाध्य नहीं देश में सात सौ से ज्यादा मेडिमल कॉलेज देश में खात जो से भी अधिका मीडमात कॉलेश हैं, जिनमें से अवदाशत में पीजी रिका भी प्रदान की जा शी है। मीडिकल कॉलिजों में शश्तों के लिए हॉन्टरन कमाने की अभिवार्यता है। सेकिम, मीजी प्राजों का हॉन्टरल में सहमा जरूरती नहीं है।

अध्योग ने शुक्रवार एक अदेश में कि बेडिकल करिनेजों ह्वारा छात्रों की कहा कि छात्रों की तरण में उसे बच्चेर भारी शुक्ला चाने हॉस्टल में रहने के शिक्त बाज कि हैं, निनमें कहा गया है।

कहीं भी यह नहीं है कि पीओ खाड़ों के लिए हॉस्टरल में रुकना अन्तिवर्ष है। यह उन पर निर्भर है कि ये हॉस्टल में र्शे क नहीं। अवकेर ने आदेश दिया है कि मेडिकल कॉलेज तत्काल इस प संज्ञान में और यदि इस बारे में फिर से शिकायतें मिली तो कार्रवर्ड की जाएंसी





Honasa Consumer Limited (formerly known as Honasa Consumer Private Limited)

CIN: U7499DL2016PLC306016

Registered office: Unit No. 404. 4th floor, City Centre, Piot No 05, Sector-12, Dwarka, New Delhi-110075, India Website: www.houasa.in: Email: compliance@manacarth in: Telephone: +91 124 4071960

	and the same of th		Quarter ended.	Norman	Prenimes year ended			
i No.	Particulars	December 31. 2023	September 30, 2823	December 31. 2022	Documber 31. 2023	December 51. 2022	March 31, 2823	
_		Unundited	Unaudited	Unsuffied	Thusdited	Exampled	Audited	
	Servine Prote speciations	4,992.15	4363.00	3,621,59	14,400.10	thman/o	14,572.44	
2	Profit before except and tens and tune	347.19	192.05	306.53	1,079.76	297.95	136.57	
1	Profettiand televitas	347.19	39205	10655	3,079.76	297.81	D.459.46	
	Profit/Costi after tax	229.00	29430	71.25	500.53	107.92	(3,599.66)	
1	Total comprehensive issues: (Swel), 641 of tax	208.00	297.64	74.06	102.31	111.00	(1,586,87	
6.	Equality Share Capitali	3,257.47	5,363.36	6,503.34	3,257,47	139336	1,343.3	
7.	Sergines (metholing Servaluation Seserve)	1000	GENERALITY	-	1 12220		11.000	
	Earnings/(Loss) per reputy share (of Rs.15V-rock)	200	- 77	100	500		17950	
	a) Retto	13131	256	9.11	2,62	9,54	(0.64)	
	6) Dilated	6.81	895	629	2.99	8.55	1886	

	Particulars		Quarter mond				Previous year ended	
550.		December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2822	December 31. 2023	December 31, March 31, 2022 2023 Usuadited Audited		
ш		Unaudited	Usualited	Duradited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1 2	Revenue from operations Profit/(Loss) before to:	4,508.92 270.66	4,681,93 475,69	3,548,56 190,85	18.572.22	18,344,77 405,48	1394821	
1	Profity(Loss) after tax.	299.34	377.36	15154	91254	309,34	(1,295.54)	

For and on behalf of Board of Directors of Honasa Consumer Limited

Varun Alash

Chairperson, Whole Time Director and CEO

Gurugram February 9, 2024

ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी विनोद से पूरे दिन पूछताछ की

ईटी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत रन के करोबी दोस्त विनोद सिंह से ईटी ने हे दिन पूछतात की। यहीं हेमंत्र कोरेन के प्रेन प्रशासकार रहें अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के बाइल फोन का पूरा दाटा इंडी ने उनकी

रीजटरी में निकाला व इसकी क्लेनिंग की।

जानकारी के मुशाबिक, दिन के 11 सजी रोपी ज़बीन पोटाल में बिजेद सिंग से पूछताछ 8 लिए इंडी ने समय भेजा था। विनोद सिंह से ही के अधिकारियों ने सीएच रहते हुए हेमंत वेरिन के साथ किए गए चैट पर पूरे दिन शवाल हुछे। ईटी के आंधकारियों को राज्य के कई छ। इटा के आध्यकारया का राज्य के कह श्रृंपीएस य आईएएस अध्यक्तरियों के साथ 1 बातचीत का चैट चिजेट के मोब्हाल से स्टा था। इंडी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में उपाही से तहे सवाल भी पूछे। पैट में आईएएस से लेकर

रवींद्र जडेजा और रिवाबा से

कोई लेना-देना नहीं : पिता

न ही में मुझे फोन करते हैं। उनकी शादी के दो-तीन मडीने बाद ही

शार्य के हो-होन महोने कर हो विकाद हो गया था। में जामनगर में अकेला रहत हूं जर्बाक रखेंद्र का पंजबटी बंगला अलग है। उन्होंने बहु रिकाम के बारे में कहा, उसने मोखा देकर परिचार को बर्बाद कर

दिया, वह परिकार नहीं चाहती। उन्होंने कहा, चिछले पांच माल से हमने रवींद्र की बेटी का पेडरा तक

नहीं देखा है। स्वीद की साम सब

कुछ संधालती है।

शंकर यादव को रिमांड पर रांची ले गई एन आईए

भाषानपुर, व.सं. १ पनआईए और उनकम टैयम टीम की क्रियमी के बार मुक्तार को पनआईए शकर करक की ट्रॉक्टि निमां पर राजी से गई। उससे पत्ने पनाईए निमां पर की नीजिए की अध्यक्त में पनतुर्व किया। आव एसेंसी ने कोर्ट में 48 पट का ट्रॉक्ट रिमांड देने का आक्र किया नया, पर कोर्ट रोज को स्वीतान की स्वीतान से ने 24 घंटे की ही जीकृत की।

जेल अकसारों के ट्रांसफर के लिए ऐसे उगारी का जिड़ा था। इंडी ने फिनोद सिंह से पूछा कि किया किन अफनारों से उसने ट्रांसफर के लिए ऐसे की बसूली की। साथ ही स्टेंग के मुख्यमंत्री रहते हुए कहां कहां से ऐसे की उचारी उसने की, साथ ही पैसी का नियंत्र कहां- कहां किया।

No. A-12034/2/2024-PMSSY-IV

भारत सरकार मास्त्र एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पीएमएसएसवाई ड्रिक्टेनन)

मेट्टो रेल शरका आयुक्त, नई दिल्ली

कक्ष में. 201-की, निमांश भवन, नहें विल्ली-110011 mar caver where why can which ceference fixes write you it worksoft faltera is ut by faproa

Je 701

वस्तुत विद्वारक एक्परीचीत जून में प्रकारित किया जारेता। तुन में विद्वारक के प्रकारक की विर्त्त के 43वी दिन लेगी।

और रिकाक्ष में बात नहीं बटरता और राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

मुंबई, एजेंसी। क्रिकेटर रवींद्र

मात्र कि उनका अपने बेटे और प्रमुख पत्नी रिवाक से कोई लेना-इंग नहीं है। उन्होंने एक अख्यबर

को दिए साधानकार में बहु रियाबा

स परिवार को बर्बाद करने का

आरोप भी लागया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं

स्ताना पाहिए था। अनिकद्ध सिंहा ने कहा, मैं रखेंद्र

जा के पिता अभिरुद्ध विंदा ने

रांची, विशेष संवाददाता। भागप रांची, विजेष संवादशामा भाजपा के पूर्व गाउँम सामा के प्रतिकार अध्यक्ष अभित शाह के विद्यालक अध्यक्ष अभित शाह के विद्यालक अध्यक्ष मान्य कर किया के सामाने में राहुत्य गांधी की वाधिकार पर सुनवार्त पूरी करने के सामा हाईकोट ने अध्यक्ष के सामा सुम्हित रख शिला है। राहुत्य ने गांधी की नियमती अध्यक्ष में द्वारा शिकास्त्र को रह ने सामा की स्वत्र ने सामा को रह ने सामा की स्वत्र ने सामा को रह ने सामा की स्वत्र ने सामा को रह ने सामा की सामा करने के लिए हाईकोर्ट में वाधिका दावर की है। जॉस्ट्स अंकुत नाथ की अदालत ने शुक्रकर कर सुनवाई पूरी करने के कद कहा कि प्राची हो तो अपन लिखित पश्च है सकते हैं। अगले सपाह फैसला सुनाए जाने की संभावना है।

📱 उ०प्र0 लोक सेवा आयोग

विक्रतियाँ गारह्मापर सुचित्र विकास आता है कि 11 पारत्यों, 2004 (पिकास को ब्रोक्ट के 50 जन्मकी में अवस्थितित को यह पूर्व कर्मीका अधिकारी/स्थायक सर्मीका अधिकारी आदि (100) परिवार 2003 के सम्बन्ध में सीटाबहुद करत अगर के इस परिवार केन्द्र में में पूर्व परिवार अगर के एक परिवार केन्द्र के भी आधीका संस्थापन किया पर है, औ निमानक है-मिंगु अस्पाद (अस्त्रकार्या) परिवार केंद्र स्था

vio	Shide.	or yourse	पुराना नाम/पता	शंशोधित नाग/पता
1	चीतसबुद्ध शहर	0492042 #	वरीका उपकेष्य कोठ-27/038, राजकीय इंग्टर कारीज, पण- यू - १ सेक्टर-12, पशट मेंठ- ४, टेक जोन-4, येटर मीराज रेस्ट, मीरामबुद्ध नगर।	२७/१००६, राजकीय झण्टर कारोज, पता - बनाक - पू, सेक्टर- 12, नीएडा गीतमबुद्ध
2	o é que c	0451656 1 0520292	परीक्षा उनकेन्द्र कोड-24/010, राजकीय इंग्टर कालेज, न्यू कशी, इरमाइत गंज, शानी, कतेहराइ, कर्नकाबाद।	010, राजकीय इण्टर करोज, न्यू बस्ती, इस्मझ्त
г	36901	समातिका	अपीय ईक्टर में देखान सकी परीव	n Issue are Fleeffice record vit

जनता जन्मजाना जन्मुका जन्मज एक घंटा पूर्व जनिवात होना सुनिविधा करे। संख्या- १६/०६/ ई-२ / २०२०-२४ विश्लंक प्रधानसङ्ख्या , १६ करवरी, २००४

दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय (रा.रा. क्षे. दिल्ली मरकार के एक अधिनियम द्वारा संस्थापित एक विश्वविद्यालय) धारा 2 (एक) एवं 12 (बी) के तहत यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त

पी-625 व 745, आउट्टम लेन्स, निकट मुखर्जी नगर, दिल्ली - 110009 फोन नम्बर- 011-35356707, 011-35152148 चेषसाइटः delhiteachersuniversity.edu.in

शिक्षण पदों का विज्ञापन

विजापन सं: 01/2024

विनांक: 10 फरवरी 2024

इस विश्वविद्यालय में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के शैक्षणिक वेतन स्तर-10 में शिक्षा के विषय में 06" सहायक प्रोफेसरों के पदों हेतु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि, इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के अंदर होगी। विवरण हेतु, कृपवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट delhiteachersuniversity.edu.in देखें।

टिप्पणी: सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन के बाद, आवेदन प्रपत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-साक्ष्योंकित प्रतियों 6 मार्च 2024 तक निम्नलिखित पते पर विश्वद्यालय में पहुंच जाए।

'सहायक कुल-सचिव, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय, पी-625 एवं 745, आउट्टम लेन्स, निकट मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009"

"आरक्षण सरकारी मानकों के अनुसार लागु होगा।


वाइस-चांसलर दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालयः रकोप कॉम्बेक्त, कोर-८, छठा तल, ७ तोदी रोइ नई दिल्ली-१२००३ टेर्सिवेक्स: 011-24360249 वेबसाइट: www.itdc.co.in सीआईएन: L74899DL3965G0I004363







	(risauči) way						-		/ //	ndfbir		
floorer		30:00 23 Wh seems fireth series— withins			31 12 22 भी वास्त्रत 9 सात अतिका- परिकार		21 /2 22 Wh stere Sheat achte- vibles	३०.१० १३ को कन्यार शिवादी अलेख- परिवित्त	31.12.22 Wh every firesh antique- viblies	31.10-33 भी सम्बद्ध ए नाह स्वतेत्वा- शरीवात	31.12.22 Wh every a vote univas—viblian	३१. ३३. ३३ को संस्था-परिका संस्था-परिका
स्थातचे से बुत आप	13,350.87	12,974.11	11,679.95	36016.57	30,328.12	45,804,04	13,493.46	13,165.33	11,804.13	36,413.85	36,707.29	45,354.58
ed and	500 ST	387.24	633.23	1,379.29	1,518.41	1,805.07	465.69	304.38	816.63	1,221,21	1,477.85	1,695.96
ga are	13,851.84	13,321.35	12,313.18	29,355.86	31,845.53	47,609.15	13,999.17	13,409.71	12,420.76	39,635.06	32,165.14	48,050-54
स्वीदे के तिल् निवात साम/(तानि) (कर, अपवादानक तैर/अववा असावारण गर्दी से पूर्व)	2,568.57	2,055.74	2,795.34	7,679.96	6,083.91	8,608.25	2,536.46	2,499.80	2,726.39	7,831,91	1,549.43	8,448.95
ल पूर्व आधि से तिए नियम लग / (११नि) अरवादात्मक और /अशब अस्थादम मधी से बाद)	3,568,79	2,559.24	2,795.34	7,679.78	6,083.91	8,606.25	2,536.22	2,699.80	2726.29	7,500.73	5,548.43	8,448.95
भ के बाद आहेंदे के डिस्ट् निवस सम्प/(हर्ति) अवदादालक और/कारत असरातम मंदी के बादा)	1,829,86	1,958.99	2,297.46	3571.41	4,612.20	8,009.25	1,790.06	1,897.29	2,360 MI	5409.73	4,475.40	5,847.88
त्वीत में तिल् मुझ मात्रम आप (मनीत में तिल् (कर हे बाद) अन्द∕(तिरी) और अन्य सामक आप (कर में हर) सामित हैं)	1,635,79	1,963.32	2,297.79	5367.45	689414	5,971.30	1,606.74	1,921.96	2,275.00	5255.45	4391.85	5,850.50
राज ईसीको संबर पूर्वी	8,575.54	8,576.94	8,576.54	8,575.94	8,576.54	8,576.94	6,576,94	8,576,54	6,676.54	657634	8,576.54	3,576.54
relite (grejous acelite: Pelli wit stispers)				And the second		29,110.84			CANE T			24,616.24
It that any (armore my & and) (who as ou tou/-) (with all of six smooth & Der) - the also appealing	2.18	2.38	2.62	6.45	5.38	7.00	211	234	245	6.35	5.12	6.90

शोर्केश मुखर आ निदेशक (पिल) च मुख्य फिलीप अधि

DIP/Shabdarth/Classified/0337/23-24